

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 8—सितम्बर 14, 2018 (भाद्र 17, 1940)

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 8—SEPTEMBER 14, 2018 (BHADRA 17, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

सं.पी.एफ. 1022-आर(7)/2018/जी एन-8450/ ए एन-1/ई-25253.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री डी.एन. थपलियाल, वरिष्ठ निजी सचिव, जिन्हें समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत 26.11.2014 से संयुक्त निदेशक (पीएसएस) के पद के साथ सम्बद्ध 15600-39100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 7600 रुपये (संशोधन-पूर्व) के पे बैंड में रखा गया है, 30.06.2018 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अर्चना पठानिया

उप सचिव

सं.पी.एफ. 227-आर(7)/जी एन-8451/2018/ ए एन-।.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री ए.के.यादव, उप सचिव 30.06.2018 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अर्चना पठानिया

उप सचिव

सं.पी.एफ. 1359-आर(7)/जी एन-8452/ ए एन-।/2018.— अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री बिपिन के. पाठक, संयुक्त निदेशक (अनुवाद) 30.06.2018 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी.गणपति

उप सचिव

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2018

सं.पी.एफ. 2925-आर(7)/जी एन-8453/ ए एन-।/2018.—इस सचिवालय में पे मैट्रिक्स (अस्थायी)[15600-39100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5400 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 10 में संसदीय रिपोर्टर ग्रेड-।। के पद पर कार्यरत श्री मोहम्मद ज़ैद के पे मैट्रिक्स [15600-39100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5400 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 10 में राज्य सभा सचिवालय में संसदीय रिपोर्टर के पद पर चयन के पश्चात्, उनके द्वारा दिया गया त्यागपत्र 3 जुलाई, 2018 के अपराहन से स्वीकार कर लिया गया है और, तत्पश्चात्, इस सचिवालय से उनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं।

2. लोक सभा सचिवालय में संसदीय रिपोर्टर ग्रेड-।। के पद पर उन्हें किसी भी रूप में धारणाधिकार नहीं मिलेगा।

3. उन्हें परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अर्थात् नई पेंशन योजना के तहत संबंधित नियमों के अनुसार लोक सभा सचिवालय में उनके द्वारा की गई सेवा का लाभ मिलेगा।

वी.गणपति

उप सचिव

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2018

सं. एफ. 23/07/2018/जीएन-8454/एएन-।.—अध्यक्ष महोदया, श्री प्रसन्न सेनगुप्ता, निजी सचिव को 09.07.2018 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स (अस्थायी)[15600-39100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

अर्चना पठानिया

उप सचिव

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2018

सं. एफ. 23/16/2018/जीएन-8455/एएन-।.—अध्यक्ष महोदया, श्री रविन्दर कुमार, मार्शल को 16.07.2018 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स (अस्थायी)[15600-39100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में सहायक निदेशक (मार्शल) के ग्रेड में नियुक्त करती हैं।

संजय सेठी

उप सचिव

सं. एफ-41/24/2018/जीएन-8456/एएन-1.—अध्यक्ष महोदया, पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को 22.04.2018 से समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत संयुक्त निदेशक (पीएसएस) के पद के साथ सम्बद्ध पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 7600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 12 में रखती हैं :-

1. श्रीमती कविता भोएट
2. श्रीमती कंवजलीत कौर

अर्चना पठानिया
उप सचिव

सं. एफ-41/24/2018/जीएन-8457/एएन-1.—अध्यक्ष महोदया, पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 5400 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 10 में कार्यरत श्री प्रसन्न सेनगुप्ता, तत्कालीन निजी सचिव, जो अब 09.07.2018 से पे मैट्रिक्स (अस्थायी)[15600-39100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में वरिष्ठ निजी सचिव, के पद पर कार्यरत हैं, को 22.04.2018 से समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत वरिष्ठ निजी सचिव पद के साथ सम्बद्ध पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में रखती हैं।

अर्चना पठानिया
उप सचिव

सं. एफ-41/24/2018/जीएन-8458/एएन-1.—अध्यक्ष महोदया, पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 5400 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 10 में निजी सचिव के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को 22.04.2018 से समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत वरिष्ठ निजी सचिव के पद के साथ सम्बद्ध पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में रखती हैं :-

1. श्री तेज राम सोमेश गोस्वामी
2. श्रीमती एन. वरूधिनी
3. श्री तरविन्दर पाल सिंह

अर्चना पठानिया
उप सचिव

एफ सं.23/01/2018/जीएन-8459/एएन-1.—अध्यक्ष महोदया, श्री बसंत बी. भट्ट, संपादक को 16.07.2018 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स (अस्थायी)[15600-39100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 12 में संयुक्त निदेशक (अनुवाद) के पद पर नियुक्त करती हैं।

अर्चना पठानिया
उप सचिव

एफ सं. 23/01/2018/जीएन-8460/एएन-I.—अध्यक्ष महोदया, श्री बृजेश कुमार, सहायक संपादक को 16.07.2018 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स (अस्थायी)[15600-39100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में संपादक के पद पर नियुक्त करती हैं।

अर्चना पठानिया

उप सचिव

सं. पीएफ. 1467- आर(3)/जीएन - 8461/एएन-1/2018.—अध्यक्ष महोदया, श्री सुनील कुमार शर्मा, जिन्हें दिनांक 25.06.2018 की अधिसूचना सं. पीएफ. 1467- आर(3)/जीएन - 8447/एएन-1/2018 के द्वारा सहायक संपादक के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, को पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5400 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 10 में सहायक संपादक के पद पर नियमित आधार पर 16.07.2018 से अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करती हैं।

2. वह सहायक संपादक के ग्रेड में 16.07.2018 से 15.07.2020 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

3. सहायक संपादक के पद पर उनकी नियुक्ति समता आंदोलन समिति के अध्यक्ष बनाम संजय कोठारी एवं अन्य मामले में एसएलपी (सी) सं. 4831/2012 में माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित अवमानना याचिका (सी) सं.314/2016 के परिणाम के अध्यक्षीन होगी।

अर्चना पठानिया

उप सचिव

सं. पीएफ. 1468- आर(3)/जीएन - 8462/एएन-1/2018.—अध्यक्ष महोदया, श्री उपेन्द्र नाथ, अनुवादक को पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5400 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 10 में सहायक संपादक के पद पर 16.07.2018 से अगले आदेश तक तदर्थ आधार पर नियुक्त करती हैं।

2. सहायक संपादक के पद पर उनकी नियुक्ति समता आंदोलन समिति के अध्यक्ष बनाम संजय कोठारी एवं अन्य मामले में एसएलपी (सी) सं. 4831/2012 में माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित अवमानना याचिका (सी) सं.314/2016 के परिणाम के अध्यक्षीन होगी।

अर्चना पठानिया

उप सचिव

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

सं. एफ. 15/10/2014/जीएन - 8463/एएन-1.—सुश्री आनोक्षा गोस्वामी, जिन्हें पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर 05.07.2015 से 05.12.2017 तक संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन संबंधी संयुक्त समिति के सभापति [श्री ए.पी.जितेन्द्र रेड्डी] के निजी स्टॉफ में सभापति के प्रसाद पर्यन्त या उनके कार्यकाल के साथ सह विस्तारी और सेवाश्रुति आधार पर नियुक्त किया गया था, की सेवाएं 05.12.2017 के अपराह्न से समाप्त की जाती हैं।

अर्चना पठानिया

उप सचिव

सं. एफ. 41/24/2018/जीएन-8464/एएन-1.—अध्यक्ष महोदया, 15600-39100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 8000 रुपये (संशोधन पूर्व) के पे बैंड में कार्यरत श्री सतीश कुमार शर्मा, अपर निदेशक (प्रिंटिंग) को 15 जुलाई, 2018 से अगले आदेश तक समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत के निदेशक (प्रिंटिंग) पद के साथ सम्बद्ध पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [37400-67000 रुपये (पीबी-4)+ ग्रेड पे 8700 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 13 में रखती हैं।

संजय सेठी

उप सचिव

सं. एफ. 41/24/2018/जीएन-8465/एएन-1.—अध्यक्ष महोदया, पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 7600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 12 में कार्यरत श्री जग भूषण वर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रिंटिंग) को 15 जुलाई, 2018 से समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत अपर निदेशक (प्रिंटिंग) के पद के साथ सम्बद्ध पे बैंड [15600-39100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 8000 रुपये (संशोधन पूर्व)] में रखती हैं।

संजय सेठी

उप सचिव

सं. एफ. 41/24/2018/जी एन - 8466/ए एन-1.—अध्यक्ष महोदया, पे मैट्रिक्स (अस्थायी)[15600-39100 रुपये (पीबी-3) +ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में कार्यरत निम्नलिखित सहायक निदेशकों (मुद्रण एवं प्रकाशन) को 15.07.2018 से समयमान स्थापन योजना - 2011 के अंतर्गत संयुक्त निदेशक (मुद्रण) के पद के साथ संबद्ध पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3) +ग्रेड पे 7600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 12 में रखती हैं:-

क्रम सं.	नाम
1.	श्री सतीश चन्दर
2.	श्री राजीव कुमार सिक्का

संजय सेठी

उप सचिव

सं. एफ. 41/24/2018/जी एन - 8467/ए एन-1.—अध्यक्ष महोदया, पे मैट्रिक्स (अस्थायी)[15600-39100 रुपये (पीबी-3) +ग्रेड पे 5400 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 10 में मुद्रण प्रबंधक के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को 15.07.2018 से समयमान स्थापन योजना - 2011 के अंतर्गत सहायक निदेशक (मुद्रण और प्रकाशन) के पद के साथ संबद्ध पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3) +ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में रखती हैं:-

क्रम सं.	नाम
1.	श्रीमती प्रकाश कौर
2.	श्री नरेन्द्र कुमार

संजय सेठी

उप सचिव

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2018

सं. एफ-15/09/जीएन-8468/एएन-1/2017.—लोक सभा सचिवालय में संसदीय रिपोर्टर ग्रेड - II के पद हेतु सीधी भर्ती परीक्षा में 21 से 25 और 28 जून, 2017 को निर्धारित गति पर आशुलिपि परीक्षा और उसके पश्चात 16.09.2017 को लिखित परीक्षा तथा 17.09.2017 को व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर चयन के परिणामस्वरूप, अध्यक्ष महोदया श्री सृजन गुप्ता को 27.06.2018 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक संसदीय रिपोर्टर ग्रेड - II के पद पर पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पी बी - 3) + ग्रेड पे 5400 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 10 में स्थानापन्न रूप में नियुक्त करती हैं।

2. वे 27 जून, 2018 से 26 जून, 2020 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगे।

3. श्री सृजन गुप्ता की नियुक्ति इस शर्त के अधीन है कि इस सचिवालय में संसदीय रिपोर्टर ग्रेड - II के पद पर उनकी नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर उन्हें लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, अन्यथा उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी और उक्त ग्रेड में उनका स्थायीकरण आस्थगित हो जायेगा।

4. संसदीय रिपोर्टर ग्रेड - II के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता आर एंड सी एस आदेश सं. पी डी ए - 1076/2003 दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 के अनुसार विनियमित होगी।

अर्चना पठानिया

उप सचिव

सं. एफ-15/09/जीएन-8469/एएन-1/2017.—लोक सभा सचिवालय में संसदीय रिपोर्टर ग्रेड - II के पद हेतु सीधी भर्ती परीक्षा में 21 से 25 और 28 जून, 2017 को निर्धारित गति पर आशुलिपि परीक्षा और उसके पश्चात 16.09.2017 को लिखित परीक्षा तथा 17.09.2017 को व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर चयन के परिणामस्वरूप, अध्यक्ष महोदया श्री निखिल मिगलानी को 22.06.2018 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक संसदीय रिपोर्टर ग्रेड - II के पद पर पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पी बी - 3) + ग्रेड पे 5400 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 10 में स्थानापन्न रूप में नियुक्त करती हैं।

2. वे 22 जून, 2018 से 21 जून, 2020 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगे।

3. श्री निखिल मिगलानी की नियुक्ति इस शर्त के अधीन है कि इस सचिवालय में संसदीय रिपोर्टर ग्रेड - II के पद पर उनकी नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर उन्हें लिखित परीक्षा और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से शार्टहैंड परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, अन्यथा उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी और उक्त ग्रेड में उनका स्थायीकरण आस्थगित हो जायेगा।

4. संसदीय रिपोर्टर ग्रेड - II के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता आर एंड सी एस आदेश सं. पी डी ए - 1076/2003 दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 के अनुसार विनियमित होगी।

अर्चना पठानिया

उप सचिव

सं. एफ-15/09/जीएन-8470/एएन-I/2017.—लोक सभा सचिवालय में संसदीय रिपोर्टर ग्रेड - II के पद हेतु सीधी भर्ती परीक्षा में 21 से 25 और 28 जून, 2017 को निर्धारित गति पर आशुलिपि परीक्षा और उसके पश्चात् 16.09.2017 को लिखित परीक्षा तथा 17.09.2017 को व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर चयन के परिणामस्वरूप, अध्यक्ष महोदया सुश्री साक्षी कुमारी को 10.07.2018 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक संसदीय रिपोर्टर ग्रेड - II के पद पर पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पी बी - 3) + ग्रेड पे 5400 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 10 में स्थानापन्न रूप में नियुक्त करती हैं।

2. वे 10.07.2018 से 09.07.2020 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी।

3. संसदीय रिपोर्टर ग्रेड - II के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता आर एंड सी एस आदेश सं. पी डी ए - 1076/2003 दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 के अनुसार विनियमित होगी।

अर्चना पठानिया

उप सचिव

सं. एफ-15/09/जीएन-8471/एएन-I/2017.—लोक सभा सचिवालय में संसदीय रिपोर्टर ग्रेड - II के पद हेतु सीधी भर्ती परीक्षा में 21 से 25 और 28 जून, 2017 को निर्धारित गति पर आशुलिपि परीक्षा और उसके पश्चात् 16.09.2017 को लिखित परीक्षा तथा 17.09.2017 को व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर चयन के परिणामस्वरूप, अध्यक्ष महोदया श्री सोनपाल सिंह को 12.07.2018 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक संसदीय रिपोर्टर ग्रेड - II के पद पर पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पी बी - 3) + ग्रेड पे 5400 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 10 में स्थानापन्न रूप में नियुक्त करती हैं।

2. वे 12.07.2018 से 11.07.2020 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

3. संसदीय रिपोर्टर ग्रेड - II के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता आर एंड सी एस आदेश सं. पी डी ए - 1076/2003 दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 के अनुसार विनियमित होगी।

अर्चना पठानिया

उप सचिव

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2018

सं. एफ-41/1/2018/जीएन-8472/एएन-I.— दिनांक 16 मई, 2018 की अधिसूचना सं. एफ. 41/1/2018/जीएन-8417/ एएन-I के अंतर्गत कुमारी के. मुआनियांग तुंगलुट, अवर सचिव को समयमान स्थापन योजना के अंतर्गत उप सचिव पद के ग्रेड को प्रदान की जाने की प्रभावी तिथि 5 फरवरी, 2018 के स्थान पर 5 अप्रैल, 2018 होगी।

2. दिनांक 16 मई, 2018 की अधिसूचना सं. एफ. 41/1/2018/जीएन-8417/ एएन-I की पूर्व अधिसूचना को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

अर्चना पठानिया

उप सचिव

सं. एफ-15/10/2014/जीएन-8473/एएन-1.—दिनांक 29 जुलाई, 2015 की अधिसूचना एफ.15/10/2014/जीएन-7810/एएन-1 और दिनांक 1 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. एफ.15 / 10 / 2014 / जीएन-7931/एएन-1 और दिनांक 3 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. एफ 15/10/2014/जीएन-8061/एएन-1 के साथ पठित 11 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. एफ 15/10/2014/जीएन-8276 के अनुक्रम में श्री ओ.पी.एस.मराठिया, कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल सहायक की प्रतिनियुक्ति की अवधि को, रेल अभिसमय समिति के सभापति (श्री भर्तृहरि महताब) के निजी स्टाफ में प्रतिनियुक्ति और सभापति के कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में कार्य करने के लिए 29 जुलाई, 2018 से सोलहवीं लोक सभा के दौरान रेल अभिसमय समिति के वर्तमान सभापति के शेष कार्यकाल अथवा अगले आदेश, इनमें से जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जाता है।

अर्चना पठानिया

उप सचिव

सं. पीएफ1548-आर (2)/जीएन-8475/एएन-1/2018.—निम्नलिखित व्यक्तियों ने 21 नवम्बर, 2017 को सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में परीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है:-

क्रम सं.	नाम
1	श्री ओमकार सिंह
2	श्रीमती स्नेहा बंसल
3	श्री जी.एम.गजेन्द्र कुमार
4	श्री कमलेश कुमार दुबे

2. यह दिनांक 24 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना सं.एफ.23/12/2015/जीएन-7908/एएन-1 के अनुक्रम में है।

संजय सेठी

उप सचिव

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2018

सं. एफ 41/01/2018/जीएन-8476/एएन-1.—अध्यक्ष महोदया, पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में कार्यरत श्री नलिन कुमार, संपादक को 14 जुलाई 2018 से समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत संयुक्त निदेशक (अनुवाद) के पद के साथ सम्बद्ध पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 7600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 12 में रखती हैं।

अर्चना पठानिया

उप सचिव

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

सं.एफ. 15/10/2014/जीएन 8477/एएन-I.—20 जून, 2018 से श्री एम.राजमोहन रेड्डी के ग्रंथालय समिति के सभापति के पद पर न रहने के परिणामस्वरूप, श्री वी.ए.जॉन, जिन्हें ग्रंथालय समिति के सभापति के निजी स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में सेवाधृति आधार पर और सभापति के प्रसादपर्यंत या उनके कार्यकाल के साथ सह - विस्तारी आधार पर नियुक्त किया गया था, को 21 जून, 2018 से 5 जुलाई, 2018 तक 15 दिन की परिसमापन अवधि प्रदान की जाती है और तत्पश्चात् 5 जुलाई, 2018 के अपराह्न से उनकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं।

अर्चना पठानिया

उप सचिव

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

सं.पीएफ.376-आर(7)/जीएन-8478/2018/ एएन-I.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री इंदु शेखर पांडे, कार्यकारी अधिकारी 31 जुलाई, 2018 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अर्चना पठानिया

उप सचिव

सं.पीएफ.1338-आर(7)/जीएन-8479/ एएन-I/2018.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री जगपाल सिंह रावत, निदेशक (अनुवाद) 31 जुलाई, 2018 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अर्चना पठानिया

उप सचिव

सं.पीएफ.1370-आर(7)/जीएन-8480/ एएन-I/2018.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री बलवान सिंह, संयुक्त निदेशक (अनुवाद) 31 जुलाई, 2018 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अर्चना पठानिया

उप सचिव

सं.पीएफ.1370-आर(7)/जीएन-8481/ एएन-I/2018.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री राजेन्द्र कुमार, संपादक 31 जुलाई, 2018 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अर्चना पठानिया

उप सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2018

सं.1/2/2017-प्रशा01(वि0का0): राष्ट्रपति, श्री बी0वी0बलराम दास, उप सरकारी अधिवक्ता (भारतीय विधि सेवा के सरकारी अधिवक्ता सेवा संवर्ग का ग्रेड-III) को दिनांक 21 अगस्त, 2018 के पूर्वाह्न से विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13 में अपर सरकारी अधिवक्ता (भारतीय विधि सेवा के सरकारी अधिवक्ता सेवा संवर्ग का ग्रेड - II) के पद पर नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार जोशी

उप सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2018

सं. 12/पीए-III/2018.—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित अधिकारी को पैनल वर्ष 2018-19 के लिए पे मैट्रिक्स (रु. 182200-224100/-) के स्तर 15 में पदोन्नति पर उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीख से विदेश मंत्रालय के विधि एवं संधि प्रभाग में अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं:

क्रम. सं.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	पदोन्नति की तिथि
1.	डॉ. वी. डी. शर्मा	28.06.1959	24.07.2018

2. उपर्युक्त नियुक्ति किसी न्यायालय के ऐसे फैसले के अध्वधीन होगी जो इस पदोन्नति को प्रभावित करे।

मनुस्मृति

अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2018

सं.ए-11019/01/2018-ईजी.—राष्ट्रपति, श्री बिनोद भूजेल को दिनांक 31.07.2018 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक 15,600 – 39,100/- रुपए (ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए) (संशोधन-पूर्व) (वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11- संशोधित) के वेतनमान में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, मेघालय, शिलांग में कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

हरि किशोर

अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2018

सं.ए-32012/09/2017-प्रशासन.II.—राष्ट्रपति, भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) के निम्नलिखित कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों को उनकी प्रोन्नति पर उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीख से वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-14 में नियुक्त करते हैं:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	आईसीएलएस के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में प्रोन्नति पर तैनाती	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री वी.के. खूबचंदानी	निदेशक, निरीक्षण एवं जांच, कारपोरेट कार्य मंत्रालय	10.07.2018 (पूर्वाहन)
2.	डा. राज सिंह	निदेशक, निरीक्षण एवं जांच, कारपोरेट कार्य मंत्रालय	23.07.2018 (पूर्वाहन)

रवि वजीरानी

अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2018

सं.स्था.ए-19011/5/2018-स्थापना.— राष्ट्रपति द्वारा श्री पी.एस. लिंगेश्वरा स्वामी, आईओएफएस(2006) को कोयला मंत्रालय में दिनांक 20 अगस्त, 2018 (पूर्वाहन) से चार वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए उप सचिव नियुक्त किया जाता है।

संजीव भट्टाचार्य

अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2018

सं. ए-19014/02/2016-प्रशा.।(ए): कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा. सं. 17/1/2017-सीएस I(यू) दिनांक 31.07.2018 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री सौमित्र बसु, अवर सचिव को सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 (1)(क) के तहत दिनांक 31.08.2018 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

एच. के. भट्ट

अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीएचएस प्रभाग)

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2018

सं. ए. 12025/26/2016-सीएचएस-III.—राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. राम मोहन रामलिंगम को दिनांक 09.08.2016 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में प्लास्टिक सर्जरी की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी.डी. महेश्वरी
अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2018

सं. 17-40/2016-एम-I.—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/16/2018-ई ओ (एम एम-I), दिनांक 16.7.2018 के अनुसरण में सुश्री ऋतु शर्मा, आई आर एस (आई टी : 2005) ने संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली में वेतन बैंड - 4,37400-67000/- रु + ग्रेड वेतन 8700/- रु. (पूर्व संशोधित) में दिनांक 4.8.2018 के पूर्वाह्न से 4 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस. के सिंह
अवर सचिव

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र)
(उत्तर प्रदेश राज्य एकक)

लखनऊ, 21 अगस्त, 2018

सं. पीएफ/3212/एनआईसी/2018-प्रशा. —राष्ट्रपति एतद्वारा श्री विकास चन्द्र रामे, कर्मचारी कोड 3212 की वैज्ञानिक-ई के पद से राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, लखनऊ से दिनांक 24 जुलाई, 2018 की अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

अबू बकर
वैज्ञानिक-ई

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 2nd July, 2018

No. PF. 1022-R(7)/2018/GN-8450/AN-I/E-25253.—On attaining the age of superannuation, Shri D.N. Thapliyal, Senior Private Secretary, who has been placed in the pay band of ₹ 15600-39100 (PB-3) *plus* grade pay ₹ 7600 (pre-revised) attached to the post of Joint Director (PSS) with effect from 26th November, 2014 under the Time Scale Placement Scheme-2011, has retired from service with effect from the afternoon of 30th June, 2018.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

No. PF. 227-R(7)/GN-8451/2018/AN-I.—On attaining the age of superannuation, Shri A.K. Yadav, Deputy Secretary has retired from service with effect from the afternoon of 30th June, 2018.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

No. P.F. 1359-R(7)/GN-8452/AN-I/2018.—On attaining the age of superannuation, Shri Bipin K Pathak, Joint Director (Translation) has retired from service with effect from the afternoon of 30th June, 2018.

V. GANAPATHY

Deputy Secretary

New Delhi, the 4th July, 2018

No. PF. 2925-R(7)/GN-8453/AN-1/2018.—Consequent upon his selection to the post of Parliamentary Reporter in Rajya Sabha Secretariat in Level-10 in the Pay Matrix [₹15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 5400 (Pre-revised)], the resignation tendered by Shri Mohd. Zaid from the post of Parliamentary Reporter Grade-II in Level 10 in the Pay Matrix (Provisional) [₹15600-39100 (PB-3) + Grade Pay ₹ 5400 (Pre-revised)] in this Secretariat has been accepted with effect from the afternoon of 3rd July, 2018 and, thereafter, he stands relieved of his duties in Lok Sabha Secretariat.

2. He shall not have any lien whatsoever on the post of Parliamentary Reporter Grade-II in Lok Sabha Secretariat.

3. He will be eligible for benefit of the service rendered in Lok Sabha Secretariat in terms of relevant rules under the Defined Contribution Pension Scheme i.e. New Pension Scheme.

V. GANAPATHY

Deputy Secretary

New Delhi the 10th July, 2018

No. F. 23/07/2018/GN-8454/AN-I.—The Speaker is pleased to appoint Shri Prasanna Sen Gupta, Private Secretary to the post of Senior Private Secretary in Level 11 in Pay Matrix (Provisional) [₹ 15600-39100(PB-3) *plus* GP ₹ 6600 (pre-revised)] with effect from 9th July, 2018 until further orders.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

New Delhi the 17th July, 2018

No. F. 23/16/2018/GN-8455/AN-I.—The Speaker is pleased to appoint Shri Ravinder Kumar, Marshal to the grade of Assistant Director(Marshal) in Level 11 in the Pay Matrix(Provisional) [₹ 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600 (pre-revised)] with effect from 16th July, 2018, until further orders.

SANJAY SETHI

Deputy Secretary

No. F. 41/24/2018/GN-8456/AN-I.—The Speaker is pleased to place the following officers in the grade of Senior Private Secretary in Level 11 in the Pay Matrix (Provisional) [₹ 15600-39100(PB-3) + GP ₹ 6600 (pre-revised)], to Level 12 in the Pay Matrix (Provisional) [₹ 15600-39100(PB-3) + GP ₹ 7600 (pre-revised)] attached to the post of Joint Director(PSS) with effect from 22nd April, 2018 under the Time Scale Placement Scheme-2011:—

1. Smt. Kavita Bhoet
2. Smt. Kawaljit Kaur.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

No. F. 41/24/2018/GN-8457/AN-I.—The Speaker is pleased to place Shri Prasanna Sen Gupta, the then Private Secretary in Level 10 in the Pay Matrix (Provisional) [₹ 15600-39100(PB-3) + GP ₹ 5400 (pre-revised)] and now Senior Private Secretary in Level 11 in the Pay Matrix (Provisional) [₹ 15600-39100(PB-3) + GP ₹ 6600 (pre-revised)] with effect from 9th July, 2018 to Level 11 in the Pay Matrix (Provisional) [₹ 15600-39100(PB-3) + GP ₹ 6600 (pre-revised)] attached to the post of Senior Private Secretary with effect from 22nd April, 2018 under the Time Scale Placement Scheme-2011.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

No. F. 41/24/2018/GN-8458/AN-I.—The Speaker is pleased to place the following officers in the grade of Private Secretary in Level 10 in the Pay Matrix (Provisional) [₹ 15600-39100(PB-3) + GP ₹ 5400 (pre-revised)], to Level 11 in the Pay Matrix (Provisional) [₹ 15600-39100(PB-3) + GP ₹ 6600 (pre-revised)] attached to the post of Senior Private Secretary with effect from 22nd April, 2018 under the Time Scale Placement Scheme-2011:—

1. Shri Tej Ram Somesh Goswami
2. Smt. N. Varudhini
3. Shri Tarvinder Pal Singh.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

F. No. 23/01/2018/GN-8459/AN-I.—The Speaker is pleased to appoint Shri Basant B. Bhatt, Editor to the grade of Joint Director (Translation) in Level 12 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 7600 (Pre-revised)] with effect from 16th July, 2018, until further orders.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

F.No.23/01/2018/GN-8460/AN-I.—The Speaker is pleased to appoint Shri Brajesh Kumar, Assistant Editor to the grade of Editor in Level 11 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600 (Pre-revised)] with effect from 16th July, 2018, until further orders.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

No. PF. 1467-R(3)/GN-8461/AN-I/2018.—The Speaker is pleased to appoint Shri Sunil Kumar Sharma, who was appointed as Assistant Editor on *ad-hoc* basis *vide* Notification No. PF. 1467-R(3)/GN-8447/AN-I/2018 dated 25.06.2018, to the post of Assistant Editor in Level 10 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 5400 (Pre-revised)] on regular basis, in an officiating capacity, with effect from 16.07.2018, until further orders.

2. He will be on probation in the grade of Assistant Editor for a period of two years with effect from 16.07.2018 to 15.07.2020.

3. His appointment to the post of Assistant Editor is subject to the outcome of the contempt Petition (C) No. 314/2016 in SLP(C) No.4831/2012-Samta Andolan Samiti through its President Vs. Sanjay Kothari & Ors. pending in the Hon'ble Supreme Court.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

No. PF. 1468-R(3)/GN-8462/AN-I/2018.—The Speaker is pleased to appoint Shri Upendra Nath, Translator to the post of Assistant Editor in Level 10 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 5400 (Pre-revised)] on *ad hoc* basis with effect from 16.07.2018, until further orders.

2. His appointment to the post of Assistant Editor is subject to the outcome of the contempt Petition (C) No.314/2016 in SLP(C) No.4831/2012-Samta Andolan Samiti through its President Vs. Sanjay Kothari & Ors. pending in the Hon'ble Supreme Court.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

New Delhi the 18th July, 2018

No. F. 15/10/2014/GN-8463/AN-I.—Ms. Aanouksha Goswami is appointed to the post of Senior Private Secretary in Level 11 in the Pay Matrix (Provisional) [₹15600-39100 (PB-3) + GP ₹6600 (pre-revised)] on the personal staff of Chairperson, Joint Committee on Food Management in Parliament House Complex (Shri A.P. Jithender Reddy) with effect

from 5th July, 2015 to 5th December, 2017 on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the Chairperson. Her services stood terminated with effect from the afternoon of 5th December, 2017.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

No. F. 41/24/2018/GN-8464/AN-I.—The Speaker is pleased to place Shri Satish Kumar Sharma, Additional Director (Printing) in Pay Band of ₹ 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay ₹ 8000 (pre-revised)] to Level 13 in the Pay Matrix (Provisional) [₹ 37400-67000(PB-4) + GP ₹ 8700 (pre-revised)] attached to the post of Director(Printing) with effect from 15th July, 2018 under the Time Scale Placement Scheme-2011.

SANJAY SETHI

Deputy Secretary

No. F. 41/24/2018/GN-8465/AN-I.—The Speaker is pleased to place Shri Jag Bhushan Verma, Joint Director(Printing) in Level 12 in the Pay Matrix (Provisional) [₹ 15600-39100 (PB-3) + GP ₹ 7600 (pre-revised)] to the Pay Band of 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay ₹ 8000 (pre-revised)] attached to the post of Additional Director(Printing) with effect from 15th July, 2018 under the Time Scale Placement Scheme-2011.

SANJAY SETHI

Deputy Secretary

No. F. 41/24/2018/GN-8466/AN-I.—The Speaker is pleased to place the following officers in the grade of Assistant Director (Printing & Publications) in Level 11 in the Pay Matrix (Provisional) [₹ 15600-39100(PB-3) + GP ₹ 6600 (pre-revised)], to Level 12 in the Pay Matrix (Provisional) [₹ 15600-39100(PB-3) + GP ₹ 7600 (pre-revised)] attached to the post of Joint Director(Printing) with effect from 15th July, 2018 under the Time Scale Placement Scheme-2011:—

1. Shri Satish Chander
2. Shri Rajeev Kumar Sikka.

SANJAY SETHI

Deputy Secretary

No. F. 41/24/2018/GN-8467/AN-I.—The Speaker is pleased to place the following officers in the grade of Manager of Printing in Level 10 in the Pay Matrix (Provisional) [₹ 15600-39100 (PB-3) + GP ₹ 5400 (pre-revised)], to Level 11 in the Pay Matrix (Provisional) [₹ 15600-39100 (PB-3) + GP ₹ 6600 (pre-revised)] attached to the post of Assistant Director (Printing & Publications) with effect from 15th July, 2018 under the Time Scale Placement Scheme-2011:—

1. Smt. Prakash Kaur
2. Shri Narender Kumar.

SANJAY SETHI

Deputy Secretary

New Delhi, the 19th July, 2018

No. F. 15/09/GN-8468/AN-I/2017.—Consequent upon his selection to the post of Parliamentary Reporter Grade-II on the basis of the performance in the Stenography Test at the prescribed speed held on 21st to 25th and 28th June, 2017, followed by the Written Test on 16th September, 2017 and Personal Interview on 17th September, 2017 in Direct Recruitment Examination for the said post in Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint Shri Srijan Gupta to the post of Parliamentary Reporter Grade-II in level 10 in the Pay Matrix (Provisional) [₹ 15600- 39100 (PB-3) + Grade Pay ₹ 5400 (Pre-revised)] in an officiating capacity with effect from the forenoon of 27.06.2018 until further orders.

2. He will be on probation for a period of two years with effect from 27th June, 2018 upto 26th June, 2020.

3. The appointment of Shri Srijan Gupta is subject to the condition that he will have to qualify the written test within a year of appointment to the post of Parliamentary Reporter Grade-II in this Secretariat, failing which he will not be granted annual increment and his confirmation in the grade will be deferred.

4. His inter-se-seniority in the grade of Parliamentary Reporter Grade-II will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

No. F. 15/09/GN-8469/AN-I/2017.—Consequent upon his selection to the post of Parliamentary Reporter Grade-II on the basis of the performance in the Stenography Test at the prescribed speed held on 21st to 25th and 28th June, 2017, followed by the Written Test on 16th September, 2017 and Personal Interview on 17th September, 2017 in Direct Recruitment Examination for the said post in Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint Shri Nikhil Miglani to the post of Parliamentary Reporter Grade-II in level 10 in the Pay Matrix (Provisional) [₹ 15600- 39100 (PB-3) + Grade Pay ₹ 5400 (Pre-revised)] in an officiating capacity with effect from the forenoon of 22.06.2018 until further orders.

2. He will be on probation for a period of two years with effect from 22nd June, 2018 upto 21st June, 2020.

3. The appointment of Shri Nikhil Miglani is subject to the condition that he will have to qualify the written test and also the shorthand test at the speed of 160 words per minute within a year of appointment to the post of Parliamentary Reporter Grade-II in this Secretariat, failing which he will not be granted annual increment and his confirmation in the grade will be deferred.

4. His inter-se-seniority in the grade of Parliamentary Reporter Grade-II will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

No. F. 15/09/GN-8470/AN-I/2017.—Consequent upon her selection to the post of Parliamentary Reporter Grade-II on the basis of the performance in the Stenography Test at the prescribed speed held on 21st to 25th and 28th June, 2017, followed by the Written Test on 16th September, 2017 and Personal Interview on 17th September, 2017 in Direct Recruitment Examination for the said post in Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint Ms. Sakshi Kumari to the post of Parliamentary Reporter Grade-II in level 10 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600- 39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 5400 (Pre-revised)] in an officiating capacity with effect from the forenoon of 10.07.2018 until further orders.

2. She will be on probation for a period of two years with effect from 10.07.2018 upto 09.07.2020.

3. Her inter-se-seniority in the grade of Parliamentary Reporter Grade-II will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

No. F. 15/09/GN-8471/AN-I/2017.—Consequent upon his selection to the post of Parliamentary Reporter Grade-II on the basis of the performance in the Stenography Test at the prescribed speed held on 21st to 25th and 28th June, 2017, followed by the Written Test on 16th September, 2017 and Personal Interview on 17th September, 2017 in Direct Recruitment Examination for the said post in Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint Shri Sonpal Singh to the post of Parliamentary Reporter Grade-II in level 10 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600- 39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 5400 (Pre-revised)] in an officiating capacity with effect from the forenoon of 12.07.2018 until further orders.

2. He will be on probation for a period of two years with effect from 12.07.2018 upto 11.07.2020.
3. His inter-se-seniority in the grade of Parliamentary Reporter Grade-II will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

New Delhi, the 20th July, 2018

No. F. 41/1/2018/GN-8472/AN-I.—The effective date of Grant of Time Scale Placement to Km. K. Muanniang Tunglut, Under Secretary to the grade of Deputy Secretary in Notification No. F.41/1/2018/GN-8417/AN-I dated 16th May, 2018 shall be 5th April, 2018 instead of 5th February, 2018.

2. Earlier Notification No. F.41/1/2018/GN-8417/AN-I dated 16th May, 2018 stands modified to the above extent.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

No. F. 15/10/2014/GN-8473/AN-1.—In continuation of Notification No. F.15/10/2014/GN-8276 dated 11th August, 2017 read with Notifications No. F.15/1 0/2014/GN-7810/AN-I dated 29th July, 2015, No. F.15/10/2014/GN-7931/AN-1 dated 1st February, 2016, and No. F.15/10/2014/GN-8061/AN-1 dated 3rd August, 2016, the term of deputation of Shri O.P.S. Marathia, Executive/Legislative/Committee/Protocol Assistant, to work on the personal staff of the Chairperson, Railway Convention Committee (Shri Bhartruhari Mahtab) as Senior Private Secretary on deputation and co-terminus basis is further extended with effect from 29th July, 2018 until the remaining tenure of the present Chairperson, Railway Convention Committee during the Sixteenth Lok Sabha or until further orders, whichever is earlier.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

No. PF. 1548-R(2)/GN-8475/AN-I/2018.—The following persons have satisfactorily completed the probation period in the grade of Security Officer on 21st November, 2017:—

Sl.No.	Name
1	Shri Omkar Singh
2	Smt. Sneha Bansal
3	Shri G.M. Gajender Kumar
4	Shri Kamlesh Kumar Dubey

2. This is in continuation of Notification No.F/23/12/2015/GN-7908/AN-I dated 24.11.2015.

SANJAY SETHI

Deputy Secretary

New Delhi, the 25th July, 2018

No. F. 41/01/2018/GN-8476/AN-1.—The Speaker is pleased to place Shri Nalin Kumar, Editor in Level 11 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600 (Pre-revised)] to Level 12 in the Pay Matrix (Provisional) {Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.7600 (Pre-Revised)} attached to the post of Joint Director (Translation) with effect from 14.07.2018 under the Time Scale Placement Scheme - 2011.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

New Delhi, the 26th July, 2018

No. F. 15/10/2014/GN-8477/AN-I.—Consequent upon the ceasing of Shri M. Rajamohan Reddy as the Chairperson of Library Committee with effect from 20th June, 2018, Shri V.A. John, who was appointed on the personal staff of Chairperson, Library Committee as Senior Private Secretary on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the Chairperson, is granted winding up period for 15 days from 21st June, 2018 to 5th July, 2018 and, thereafter, his services stand terminated with effect from the afternoon of 5th July, 2018.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

New Delhi, the 31st July, 2018

No. PF. 376-R(7)/GN-8478/2018/AN-I.—On attaining the age of superannuation, Shri Indu Shekhar Pandey, Executive Officer has retired from service with effect from the afternoon of 31st July, 2018.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

No. PF. 1338-R(7)/GN-8479/AN-I/2018.—On attaining the age of superannuation, Shri Jagpal Singh Rawat, Director (Translation) has retired from service with effect from the afternoon of 31st July, 2018.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

No. PF. 1370-R(7)/GN-8480/AN-I/2018.—On attaining the age of superannuation, Shri Balwan Singh, Joint Director (Translation) has retired from service with effect from the afternoon of 31st July, 2018.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

No. PF. 1370-R(7)/GN-8481/AN-I/2018. On attaining the age of superannuation, Shri Rajendra Kumar Sharma, Editor has retired from service with effect from the afternoon of 31st July, 2018.

ARCHNA PATHANIA

Deputy Secretary

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 27th August, 2018

No. ½/2017-Admn. I(LA).—The President is pleased to appoint Shri B.V. Balaram Das, Deputy Government Advocate (Grade-III of Government Advocates' Service Cadre of the Indian Legal Service) to the grade of Additional Government Advocate (Grade-II of Government Advocates' Service Cadre of the Indian Legal Service) in the level 13 of Pay Matrix in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, with effect from the forenoon of 21st August, 2018.

A. K. JOSHI

Deputy Secretary

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 27th August, 2018

No. 12/PA-III/2018.—The President is pleased to appoint the following officer as Additional Secretary in the Legal and Treaties Division of Ministry of External Affairs on promotion in Level 15 of the Pay Matrix (Rs. 182200-224100/-) for the panel year 2018-19 with effect from the date mentioned against his name :-

Sl. No.	Name of the Officers	Date of Birth	Date of Promotion
1.	Dr. V.D. Sharma	28.06.1959	24.07.2018

2. The above appointment will be subject to any court decision, which may have a bearing on these promotions.

MANUSMRITI

Under Secretary

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 20th August, 2018

No. A-11019/01/2018-EG.—The President is pleased to appoint Shri Binod Bhujel as Welfare Officer in the Office of the Principal Accountant General (Audit), Meghalaya, Shillong in the scale of Rs.15,600–39,100/- (Grade Pay Rs.6,600/-) (pre-revised) (Level-11 in Pay Matrix-Revised) with effect from 31.07.2018(F.N.) until further order.

HARI KISHORE

Under Secretary

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 10th August, 2018

No. A-32012/09/2017-Ad.II.—The President is pleased to appoint the following Junior Administrative Grade officers to Senior Administrative Grade of India Corporate Law Service in Level-14 of Pay Matrix on their promotion with effect from the date mentioned against their name :-

S. No.	Name of the Officer	Posting on Promotion to SAG of ICLS	Date of effect of SAG appointment
1.	Shri V. K. Khubchandani	Director of Inspection and Investigation, MCA	10.07.2018 (F.N.)
2.	Dr. Raj Singh	Director of Inspection and Investigation, MCA	23.07.2018 (F.N.)

RAVI VAZIRANI

Under Secretary

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 21st August, 2018

No. Est-A-19011/5/2018-ESTABLISHMENT.—The President is pleased to appoint Shri P.S.Lingeswara Swami, IOFS(2006) as Deputy Secretary in the Ministry of Coal for a period of four years with effect from 20th August, 2018 (Forenoon) or until further orders, whichever events takes place earlier.

SANJIB BHATTACHARYA

Under Secretary

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science AND Technology)

New Delhi, the 16th August, 2018

No A-19014/02/2016-Admn I(A).—Consequent upon the acceptance of his Voluntary Retirement Notice by the Competent Authority, vide DoP&T's O.M. No. 17/1/2017- CS I(U) dated 31.07.2018, the President is pleased to retire Shri Soumitra Basu, Under Secretary from Government Service w.e.f. 31.08.2018 (AN) under Rule 48 (1) (a) of CCS (Pension) Rules, 1972.

H.K. BHATT

Under Secretary

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(CHS Division)

New Delhi, the 27th August, 2018

No. A. 12025/26/2016-CHS.III.—The President is pleased to appoint Dr. Ram Mohan Ramalingam to the post of Assistant Professor in the speciality of Plastic Surgery in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 09.08.2016 and until further orders.

D.D. MAHESHWARI

Under Secretary

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 17th August, 2018

No. 17-40/2016-M-I.—In pursuance of Department 6 of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer) Office Memorandum No. 4/16/2018-EO (MM-I) dated 16.7.2018, Ms. Ritu Sharma, IRS (IT:2005) has assumed the charge of post of Director, National Gallery of Modern Art, New Delhi under the Ministry of Culture at the level of Director (in PB-4 Rs. 37400-67000+GP Rs. 8700) (pre-revised) with effect from the forenoon of 4.8.2018 for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier.

S.K. SINGH

Under Secretary

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(NATIONAL INFORMATION CENTRE)

(Uttar Pradesh State Unit)

Lucknow, the 21st August, 2018

No. PF/3212/NIC/2018/Adm.— The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Shri Vikas Chandra Ramey, Emp. Code No. 3212 from the post of Scientist-E, National Informatics Centre, Lucknow from the afternoon of 24th July, 2018 and the stands relieved of his duties from the same day.

ABU BAKAR

Scientist-E